

भारत के राजस्व अताधारण मान II, छं 3 उपर्युक्त [H] ।  
में दिनांक 6 दिसंबर, 1993 को प्रकाशनार्थ ।

भारत तरकार  
पित संचालय  
राजस्व क्षमाय ।  
केन्द्रीय प्रत्वक्ष कर बोर्ड ।

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसंबर, 1993

अधिकृत्यना

आद-कर

का० ३०० [अ] - आदकर अधिनियम, 1961 [1961 का ५३] की  
पारा १० के छं 123-ही [द्वारा प्रदत्त शाकित्यों का प्रयोग करते हुए,  
केन्द्रीय तरकार सतद्वारा ○इंडियन बैंक, जो बैंकिंग ब्यनी इयम्ब्रों का  
अधिकृत्यना और अन्तरण । अधिनियम, 1970 [1970 का ५] की पारा ३  
के अन्तर्गत तंत्यापित एवं तदनुस्मी न्याय बैंक है, द्वारा दिनांक 27 जून, 1993  
के एवं न्याय विलेख के अन्तर्गत त्यापित किए गए "झट बैंक आंफ शाओर  
म्हुप्पल फण्ठ" को उक्त छंठ के उद्घोषनार्थ एवं म्हुप्पल फण्ठ के ऊंचे में  
पिनीर्दिष्ट करती है ।

२०१२०२०

। पाई० ३० बत्ता ।  
अपर तथ्य, भारत तरकार

फा० तं० 133/132/93-टी०षी०सल०

तं० ९६२४